

विद्या भवन , बालिका विद्यापीठ , लखीसराय

रूपम कुमारी, वर्ग- दशम, विषय- हिंदी

दिनांक- 31 अगस्त 2020

NCERT syllabus

॥ अध्ययन- सामग्री ॥

सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में हम- कृतिका पाठ्यपुस्तक , पाठ 2-

'जॉर्ज पंचम की नाक' को लेकर उपस्थित हैं -

२ जॉर्ज पंचम की नाक

कमलेश्वर

यह व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है ।

यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थीं । अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी । रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं- रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी ? उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था । आखिर कोई मज़ाक तो था नहीं । जमाना चुकि नया था, फौज- बांटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे , इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी ....

इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थीं, कि रानी ने एक ऐसी हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है .....कि करीब 400 पौंड खर्चा उस सूट पर आया है ।

रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे । और तो और उनके नौकरों , बाबरचियों, खानसामों, अंग रक्षकों की पूरी की पूरी जीवनियां देखने में आईं । शाही महल में रहने और चलने वाले कुत्तों तक की तस्वीर अखबारों में छप गईं .....

बड़ी धूम मची थी । बड़ा शोर- शराबा था । शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी ।

इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी । राजधानी में तहलका मचा हुआ था । जो रानी ₹5000 का रेशमी सूट पहनकर पालन के हवाई अड्डे पर उतरेंगी उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए ।

आज के लिए बस इतना ही, शेष कल...

. निर्देश- दी गई सामग्री को पढ़कर समझने का प्रयास करें ।